		Appendi	xI					
Organisational set up in various Railway departments								
Department	Head of the Department	Officials at Zonal Headquarters	Officials in Division/ Workshop/ other field units	Functions in relation to execution of various contracts				
Commercial	Principal Chief Commercial Manager	Chief Commercial Managers of different disciplines namely Freight, Passengers, Claims, etc. and Deputy Chief Commercial Managers	Senior Divisional Commercial Managers assisted by Divisional Commercial Managers, Assistant Commercial Managers, Commercial Inspectors, Station Managers (Commercial aspects)	Mechanized Cleaning contracts of stations; contracts for advertisements, leasing and licensing of commercial plots, stalls/ vendors, parcel van, SLR coaches and special trains, rag picking etc				
Operating	Principal Chief Operations Manager	Chief Freight Transportation Manager, Chief Passenger Transportation Manager, Deputy Chief Operations Manager	Senior Divisional Operations Manager assisted by Divisional Operations Managers, Assistant Divisional Operations Managers	Loading/unloading of line boxes of Guards in trains, Hiring of vehicles				
Finance	Principal Financial Advisor and Financial Adviser (FA&CAO), Deputy FA&CAO assisted by Senior Assistant Finance Managers, Assistant Finance Managers		Senior Divisional Finance Managers assisted by Divisional Finance Managers, Assistant Divisional Finance Managers	Hiring of vehicles.				
Civil Engineering Open line	Principal Chief Engineer	Chief Engineers, Deputy Chief Engineers	Senior Divisional Engineers, assisted by Assistant Divisional Engineers and Section Engineers	Maintenance of railway assets such as tracks, bridges, buildings, water works, etc. through execution of contracts. Apart from this, Civil Engineering (Open Line) also constructs civil assets like quarters, office buildings, upgradation of railway stations, laying of water pipe lines etc.				

Appendix I								
Organisational set up in various Railway departments								
Department	Department Head of the O Department		Officials in Division/ Workshop/ other field units	Functions in relation to execution of various contracts				
Mechanical	Principal Chief Mechanical Engineer	Chief Motive Power Engineer, Deputy Chief Mechanical Engineers assisted by Assistant Mechanical Engineers	In Workshops - Chief Workshop Manager, Chief Workshop Engineer, and Deputy Chief Mechanical Engineers assisted by Assistant Mechanical Engineers. In Divisions- Senior Divisional Mechanical Engineers assisted by Divisional Mechanical Engineers, Assistant Divisional Mechanical Engineers In Sheds – Senior Divisional Mechanical Engineers assisted by Divisional Mechanical Engineers, Assistant Mechanical Engineers	Maintenance of rolling stock in workshops and execution of contracts for the same. Contracts for washing of linen, cleaning of coaches in sheds and running trains; Contracts for disposal of mechanical scrap (auction sale). Contracts for on board housekeeping and contracts under Clean train station scheme				
Electrical	Chief Electrical Engineer	Chief Electrical Distribution Engineer, Chief Electrical Loco Engineer, Chief Electrical Traction Engineer, Deputy Chief Electrical Engineers	In Divisions- Senior Divisional Electrical Engineers of different disciplines namely traction, general, operations assisted by Divisional Electrical Engineers, Assistant Electrical Engineers In Sheds- Senior Divisional Electrical Engineer/ Rolling Stock assisted by Divisional Electrical Engineers, Assistant Electrical Engineers	Maintenance of all electrical assets including electric locos and execution of contracts for the same, Removal and disposal of Garbage, Maintenance and preparation of meals in kitchen in Running Rooms.				
Signal and Telecommuni cation (S&T)	Principal Chief S&T Engineer	Chief S&T Engineer assisted by Deputy Chief S&T Engineer.	Senior Divisional S&T Engineer assisted by Divisional S&T Engineers, Assistant S&T Engineers	Maintenance of all S&T assets and execution of contracts for the same, Hiring of vehicles etc.				
Construction	Chief Administrative Officer	Chief Engineers of all disciplines, Deputy Chief Engineers	Deputy Chief Engineers, Executive Engineers, Assistant Engineers,	Construction of new railway assets and execution of				

		Appendi	xl					
Organisational set up in various Railway departments								
Department	Head of the Officials at Zonal Department Headquarters		Officials in Division/ Workshop/ other field units	Functions in relation to execution of various contracts				
			Section Engineers and Junior Engineers	contracts for the same				
Stores	Principal Chief Materials Manager Manager Manager Materials Manager Assisted by Senior Materials Manager and Assistant Materials Manager.		In Divisions - Senior Divisional Materials Manager In Stores Depot - Deputy Chief Materials Manager assisted by Assistant Materials Manager,	Procurement of stores for users of different departments through tenders and contracts, Contracts for disposa of scrap of all departments, Removal and disposal of Garbage, Transportation of materials, Hiring of vehicles, etc.				
Personnel	Personnel Principal Chief Personnel Officer, Personnel Officer Deputy Chief Personnel Officer Officer assisted by Senior Personnel Officer and Assistant Personnel Officer		Senior Divisional Personnel Officer assisted by Divisional Personnel Officer and Assistant Divisional Personnel Officer	Staff matters, Canteens, Hiring of vehicles, Hiring of secretarial staff.				
Safety	Chief Safety Deputy Chief Safety S		Senior Deputy Safety Officer	Ensuring safety of railway assets, Hiring of vehicles etc.				
Security	urity Chief Security Additional Chief Commissioner Security Commissioner		Senior Divisional Security Commissioner, Assistant Divisional Security Commissioner	Security, Hiring of vehicles etc.				
MedicalPrincipalMedical Director,Chief MedicalMedical Officers, AssistantDirectorMedical Officers		Chief Medical Superintendent, Divisional Medical Officers, Assistant Divisional Medical Officers, Health Inspectors	Providing Medical facilities to railway staff.Cleaning and sanitisation Contracts for Railway Hospitals, colonies.Hiring of ambulance etc.					
Information Technology (IT)	Chief Manager, Information Technology	Senior Electronic Data Processing (EDP) Manager	Senior Divisional EDP Manager, EDM Manager	Maintenance Contract of assets of IT Centre				

कार्य का नामः         1       संविता मजदूर का नाम         2       पिता का नाम         3       पता         4       मोबाइल संख्या         5       आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कर्मचारी गज्य बीमा संख्या क्या है ?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता         8       कर्मचारी अविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी प्रज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के जंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविंदा मजदूर के रुप में आपको क्या-क्या क्रुगतान वा सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या क्रुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको वहा कुगतान कत्द में हैं या बँक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके लकत्द मुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किय जाते है?         17       आपके कितना दोस्तविक सजद्री मिया जाते है?         18       सत्ताह के कित्त दिन कार्य किय जाते है?         19       सात्ताह के कित दिन कार्य लार्य कर्य पर आपको कितनी मजदूरी भटात ही जारी है?         20		Appendix II				
1       संविदा मजदूर का नाम         2       पिता का नाम         3       पता         4       मोबाइल संख्या         5       आपका कर्मचारी अविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता         8       कर्मचारी अविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी प्राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपके क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपक नकद भुगतान कसद में है रा बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान कसद में है रा बैंक के माध्यम से मिलता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपक द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है? <th></th> <th colspan="5">संविदा मजदूर के लिए प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रारूप</th>		संविदा मजदूर के लिए प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रारूप				
1       संविदा मजदूर का नाम         2       पिता का नाम         3       पता         4       मोबाइल संख्या         5       आपका कर्मचारी अविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता         8       कर्मचारी अविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी प्राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपके क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपक नकद भुगतान कसद में है रा बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान कसद में है रा बैंक के माध्यम से मिलता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपक द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है? <th></th> <th></th>						
2       पिता का लोग         3       पता         4       मोबाइल संख्या         5       आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कर्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका लाम एवं पता         8       कर्मचारी भविष्य लिधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी प्राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपके वह भुगतान लकद में है या बँक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किय जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किय जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका सप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?						
3       पता         4       मोबइल संख्या         5       आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता         8       कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?         9       कर्मचारी ग्रजिय बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं ?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/आधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किय जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किये जाते है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका सप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य कार्य करने पर आपके कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनर्य कार्य हे तितनी है?		· · ·				
4       मोबइल संख्या         5       आपका कर्मचारी अविष्य निधि खाता सख्या क्या है?         6       आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?         7       ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता         8       कर्मचारी अविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?         9       कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको वह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/आधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किय जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किय जाते है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका सप्पाहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	2	पिता का नाम				
5         आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?           6         आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?           7         ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता           8         कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?           9         कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?           10         आप कब से वर्तमान ठेकेदार का कोड क्या है ?           10         आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?           11         संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?           12         वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?           13         आपक वक्स द भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?           14         क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?           15         वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?           17         आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?           18         सप्लाह के किस दिन आपका साप्लाहिक अवकाश होता है?           19         साप्ताहिन अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?           20         आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	3	·				
<ul> <li>6 आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?</li> <li>7 ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता</li> <li>8 कर्मचारी मविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?</li> <li>9 कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?</li> <li>10 आप कब से वर्तमान ठेकेदार के कोड क्या है ?</li> <li>10 आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?</li> <li>11 संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?</li> <li>12 वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?</li> <li>13 आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?</li> <li>14 क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?</li> <li>15 वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?</li> <li>16 आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?</li> <li>17 आपके द्वारा प्रप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?</li> <li>18 सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?</li> <li>19 साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?</li> <li>20 आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?</li> </ul>	4					
7               み着式tx/tý 动和 気 (丸) い 知 和 本 本 秋 表 巻 ざ 3 秋和 可用 地 で i             vr             vr	5	आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?				
पता         8       कर्मचारी भविष्य लिधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?         9       कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?         10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके दवारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रताह दे?         20       आपको मालने वाले बोनस की राशि कितनी है?	6	आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?				
8         कर्मचारी भविष्य लिधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?           9         कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?           10         आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?           11         संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?           12         वर्तमान में आपको कया-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?           13         आपको वह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?           14         क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?           15         वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?           16         आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?           17         आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?           18         सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?           19         साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?           20         आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	7	ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं				
9         कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?           10         आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?           11         संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?           12         वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?           13         आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?           14         क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?           15         वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?           16         आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किय जाते है?           17         आपके द्वारा प्रतिदिन कितने दिन कार्य किया जाता है?           18         सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?           19         साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?           20         आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?		पता				
10       आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?         11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	8	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?				
11       संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	9	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?				
चाहिए?         12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	10	आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?				
12       वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?         13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	11	संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या स्विधा मिलना				
13       आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?         14       क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?		चाहिए?				
14       कर्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	12	वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?				
14       कर्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?         15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	13	आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?				
15       वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?         16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	14					
16       आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?         17       आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?         18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?		उपलब्ध होता है?				
<ul> <li>17 आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?</li> <li>18 सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?</li> <li>19 साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?</li> <li>20 आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?</li> </ul>	15	वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?				
18       सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?         19       साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी         प्रदान की जाती है?         20       आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	16	आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?				
<ul> <li>19 साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?</li> <li>20 आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?</li> </ul>	17	आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?				
प्रदान की जाती है? 20 आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	18	सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?				
20 आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?	19	साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी				
		प्रदान की जाती है?				
21 कम आपनी चोर्ट प्रजनी बनगा है गरि वाँ यो बन किस प्रपण है	20	आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?				
21 क्या जापका काइ मजदूरा बकाया ह, याद हा ता पह किस समय क	21	क्या आपकी कोई मजदूरी बकाया है, यदि हाँ तो वह किस समय के				
लिए बकाया है?						

संविदा मजदूर का हस्ताक्षर

निरीक्षण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

# Appendix III

#### FORM VI-B

# [See Rule 81 (3)]

# Contract Labour (R&A) Central Rules - 1971

## Notice of Commencement/Completion of Contract Work

1. Name of the Principal Employer and Address......

2. Number and date of Certificate of Registration.....

Signature of Principal Employer

То

The Inspector

.....

Appendix

#### Appendix IV

# **Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules**

### FORM XXV

#### See Rule 82(2)

## Annual Return of Principal Employer to be sent to the Registering Officer

Year ending 31st December, \_\_\_\_\_

- 1. Full name and address of the Principal Employer.\_\_\_\_\_
- 2. Name of Establishment:
  - (a) District
  - (b) Postal Address\_\_\_\_\_

(c) Nature of operation/industry/work carried on\_\_\_\_\_\_

- 3. Full name of the Manager or person responsible for supervision and control of the establishment.
- Number of contractors who worked in the establishment during the year (Give details in Annexure).
- 5. Nature of work/operations on which contract labour was employed.
- 6. Total number of days during the year on which contract labour was employed.\_\_\_\_\_
- Total number of man-days worked by contract labour during the year.
- 8. Maximum number of workmen employed directly on any day during the year.\_\_\_\_\_
- 9. Total number of days during the year on which direct labour was employed.
- 10. Total number of man-days worked by directly-employed workmen.\_\_\_\_\_
- 11. Change, if any, in the management of the establishment, its location, or any other particulars furnished to the Registering Officer in the application for Registration indicating also the dates.\_

Principal Employer

Place_	
Date	

### Annexure to Form XXV

Name and Address of the Contractor		od of tract <i>To</i>	Nature of work	Maximum number of workers employed by each contractor	No. of days worked	No. of man- days worked
1	2	2	3	4	5	6

	A man and the M
	Appendix V
	FORM XXIV
	[See Rule 82(1)]
	Return to be sent by the Contractor to the Licensing Officer
	Half-Year-Ending
1.	Name and address of the Contractor
•	
2.	Name and address of the establish-
	ment
3.	Name and address of the Principal
•	employer
	- F - 7 -
4.	Duration of Contract: Fromto
5.	No. of days during half year on which-
	(a) the establishment of the Principal
	employer had worked
	(b) the contractor's establishment had worked
6.	worked Maximum number of contract labour emp-
0.	loyed on any day during the half year:
	Men Women Children Total
7.	(i) Daily hours of work and spread over-
	(ii) <i>(a)</i> whether weekly holiday
	observed and on what day-
	(b) If so, whether it was paid for-
	(iii) No. of man-hours of overtime worked
0	Number of man days worked by
8.	Number of man-days worked by- Men Women Children Total
	Wen women Children Total
9.	Amount of wages paid-
	Men Women Children Total
10.	Amount of deduction from wages, if any-
	Men Women Children Total
11.	Whether the following have been provided-
11.	
	(i) Canteen (ii) Rest-Room
	(iii) Drinking water
	(iv) Creches
	(v) First-Aid
	(If the answer is 'yes' state briefly standards provided)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Signature of Contractor

Place .....

Date .....

## Appendix VI

**Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules** 

#### FORM XII

See Rule 74

#### **Register of Contractors**

- 1. Name and address of the Principal Employer\_\_\_\_\_
- 2. Name and address of the establishment\_\_\_\_

S. no	Name and address of contractor	Nature of work on	Location of contract	Period of contract		Maximum No. of workmen	
		contract	work	From	То	employed by contractor	